

सं. 24: खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2024-25	2024	2025					
		अप्रै. 26	मार्च 21	मार्च 28	अप्रै. 04	अप्रै. 11	अप्रै. 18	अप्रै. 25
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	26554	8989	13884	26554	17184	14441	12637	13756
1.2 प्राथमिक व्यापारी	25258	22711	20137	25258	24563	25236	23228	23981
1.3 राज्य सरकारें	40315	31670	53128	40315	40918	35918	24417	43217
1.4 अन्य	115688	114700	126479	115688	122754	122623	123435	118563
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	44887	77964	43990	44887	40572	46806	46504	43713
2.2 प्राथमिक व्यापारी	62218	78906	52239	62218	64068	61865	62287	66918
2.3 राज्य सरकारें	11078	7406	10928	11078	10340	10340	7632	8932
2.4 अन्य	104994	114134	103871	104994	105660	100629	99510	96669
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	72304	91933	68305	72304	63863	69748	69847	67854
3.2 प्राथमिक व्यापारी	86939	160059	94604	86939	90745	87217	86096	85280
3.3 राज्य सरकारें	37389	37488	37132	37389	37311	45060	45432	45879
3.4 अन्य	162757	164008	161091	162757	164393	159036	157057	156866
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	273670	223837	326396	273670	140737	186371	199559	187551
4.4 अन्य	572	537	378	572	1319	551	461	1005
कुल खजाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल को छोड़कर)#	790381	909968	785787	790381	782369	778918	758082	771628

14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।